

Date: January 25, 2024

Ref. OSIL/SEC/101/2024-25

To  
The BSE Limited,  
Corporate Relationship Department,  
1<sup>st</sup> Floor, New Trading Wing,  
Rotunda Building, P J Towers,  
Dalal Street, Fort Mumbai- 400 001

**Subject: Newspaper cutting evidencing publication of Unaudited Financial Results for the third quarter and nine months ended December 31, 2024**

**Ref: Orosil Smiths India Limited [ISIN: INE628B01034] [Scrip Code: 531626]**

Dear Sir/Ma'am,

In terms of Regulation 47 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Unaudited Financial Results for the third quarter and nine months ended December 31, 2024 have been published on 25.01.2025, in the newspapers, namely, "Jansatta", a Hindi daily, and "Financial Express", an English daily, in Delhi.

Attached herewith is a copy of the above-mentioned newspapers' cuttings, evidencing the publication of the said Unaudited Financial Results for the third quarter and nine months ended December 31, 2024, as approved by the Board at its Meeting held on 24.01.2025.

This is for your information and record.

For and on behalf of  
Orosil Smiths India Limited

*Sakshi Bansal*  


**Sakshi Bansal**  
Company Secretary & Compliance Officer



the balance 75% of the bid amount within 15 days from the date of in the prescribed mode of payment.

4. The purchaser has to bear the cost, applicable stamp duty, fees, and land and all other incidental costs, charges including all taxes and

5. The purchaser has to pay TDS application to the transaction/paym

6. Bidders are advised to go through the website https://www.iiifloneh.com/terms and conditions of auction sale & auction application form before

7. For details, help procedure and online training on e-auction care@iiiflonehome.com, Support Helpline Numbers:@1800 2677

8. For any query related to Property details, Inspection of Property hrs to 18:00 hrs between Monday to Friday or write to email-

9. Notice is hereby given to above said borrowers to collect the house cal possession within 7 days, otherwise IIFL-HFL shall not be respo

10. Further the notice is hereby given to the Borrowers/Is, that in case they

11. In case of default in payment at any stage by the successful bidder and the amount already paid will be forfeited (including EMD) and t

12. AO reserves the rights to postpone/cancel or vary the terms and co dispute in tender/Auction, the decision of AO of IIFL-HFL will be the

**15 DAYS SALE NOTICE UNDER THE R**

The Borrower are hereby notified to pay the sum as mentioned above Tender/Auction, failing which the property will be auctioned/sold and

Place: Jalandhar, Date: 25-Jan-2025

# केनरा बैंक Canara

(भारत सरकार का उपक्रम)

Canara Bank Regional Office Ka  
PHONE NO. 01842205

## SALE NOTICE OF IMM RECONSTRUCTION OF FINANC 2002 UNDER RULES 6 (2) O

Notice is hereby given to the public in general movable properties mortgaged/charged to the of Canara Bank will be sold on "As is where provider BAANKNET.COM (M/s PSB Allia 8160205051, Email : support.baanknet.co

## LAST DATE OF RECE DATE OF E-AUCTION (with unlimited exten

SL NO.	Branch Name/Name & Address of the Borrower(s)/ Guarantor(s)	Brief De Pro
1	Canara Bank : Karnal Prem Nagar Branch, Authorised officer : Sh. U K Pandey, (M) 85728-25054, Mail id: cb5054@canarabank.com Smt. Kanchan Arora w/o Sh. Puneet Kwatra Borrower H.no. 65, Kachwa Rd	Four Wheel Grand Vita Sigma hav no. HR05BK K15CN716

**Other terms and conditions:**

A) The property is being sold with all the existing Creditor shall not be responsible in any way for any to the property to his satisfaction. The bidder are pertaining to the secured assets including the dues/liabilities/encumbrances from the concerned make any claim against the authorized officer/Seco

B) Auction / bidding shall be only through "Online B website for detailed terms before taking part in

C) The property can be inspected, with Prior Appro

D) The property will be sold for the price which is more

E) EMD amount of 10% of the Reserve Price is generating the Challan therein to deposit the EMD

F) After payment of the EMD amount, the intendi 5.00 p.m. to Canara Bank Branch by hand or by e

G) Demand Draft/Pay order towards EMD amount. i) Photocopies of PAN Card, ID Proof and Address at the time of making payment of balance amount ii) Bidders Name, Contact No., Address, E-Mail id iv. Bidder's A/c. details for online refund of EMD.

H) The intending bidders should register their name bidder may avail online training on E- auction support.baanknet@psballiance.com).

I) EMD deposited by the unsuccessful bidder shall


J) Auction would commence at Reserve Price, as submits the highest bid (above the Reserve price) in favour of the successful bidder, subject to confirm

K) The successful bidder shall deposit 25% of the sa the balance within 15 days from the date of confirm by him shall be forfeited by the Authorized Officer Laks (Rupees Fifty Lakhs) and above, the success TDS certificate to the Bank.

L) All charges for conveyance, stamp duty / GST, whatsoever, including outstanding, if any, in resp


M) Authorized Officer reserves the right to postpo

N) In case there are bidders who do not have




**OROSIL SMITHS INDIA LIMITED**

Regd. Office: Flat No. 906, Arunachal Building, 19, Barakhamba Road, New Delhi-110001, India  
Corp. Office: A-89, Sector-2, Noida (U.P.) 201301, India  
PH: +91 120 4125476 Email: info@orosil.com, Website: www.orosil.com, CIN: L74110DL1994PLC059341



**kuhjohl**

www.kuhjohl.com



**SINCERE**  
PRECIOUSLY YOURS

www.sincerejewellery.com

**STATEMENT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE Q3RD QUARTER AND NINE MONTHS ENDED ON DECEMBER 31, 2024**

(Figures-INR In Lakhs except per share data)

S. No.	Particulars	Quarter Ended On			Nine Months Ended on		Year Ended
		31.12.2024 (Unaudited)	30.09.2024 (Unaudited)	31.12.2023 (Unaudited)	31.12.2024 (Unaudited)	31.12.2023 (Unaudited)	
1	Total Income from Operations (net)	26.77	5.96	20.16	37.72	41.2	54.51
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	3	-10.37	-7.34	-20.06	-33.87	-40.77
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	3	-10.37	-7.34	-20.06	-33.87	-40.77
4	Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	2.93	-10.32	-7.34	-20.08	-33.8	-40.66
5	Total Comprehensive Income/ (Loss) for the period (Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	0	0	0.58	-0.01	0.87	-0.01
6	Equity Share Capital	413.16	413.16	413.16	413.16	413.16	413.16
7	Other Equity	0	0	0	0	0	0
8	Earning Per Share (Face value Re. 1/- Each) (For Continuing and Discontinuing Operations) Basic : Diluted (In Rs.)	0.01	-0.02	-0.02	-0.05	-0.08	-0.1

**NOTES:**

- The above Unaudited Financial Results of the Company for the third quarter and nine months ended December 31, 2024 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board at their respective meetings, held on January 24, 2025.
- This Statement has been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (as amended) and prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 and other recognised accounting practices and policies to the extent possible.
- The Statutory Auditors of the Company have issued a Limited Review Report in respect of above Unaudited Financial Results for the third quarter and nine months ended December 31, 2024 in terms of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015.
- Since the Company operates in single segment, segment wise reporting is not applicable according to Ind AS 108.
- The financial results are available on the Company's website at www.orosil.com and at the website of stock exchange, www.bseindia.com.
- Previous year's/Quarter's figures have been regrouped/reworked whenever necessary to make them comparable with those of the quarter/ half year.
- There were no investors complaints pending as on quarter ended December 31, 2024.
- The amount of Rs 5312381 represents a stock transfer from the Uttar Pradesh branch to the Delhi branch. This amount has been deducted from the total Revenue from Operations of Rs. 8949604.

For & on behalf of Board of Directors of  
Orosil Smiths India Limited  
Sd/-  
E K Narula  
(Managing Director)  
DIN: 00003829

Place: New Delhi.  
Date: January 24, 2025

**CHAPTER III OF SECURITISATION & RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002 (HEREINAFTER REFERRED TO AS "THE ACT")**

**CHAPTER III OF SECURITISATION & RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002 AMENDED AS ON DATE**

After referred to as "PNBHFL") had issued Demand notice U/s 13(2) of Chapter III of the Securitization & Reconstruction Security Interest Act, 2002 (hereinafter referred to as the "Act") by our MEERUT Office Situated At PP Plaza, 3rd Floor, Road, Meerut- 250004, by our GREEN PARK Office Situated At S-17, 2nd Floor, Green Park Extension, New Delhi-110016, G. Plot No-9/INS-11, Sector-09,Vasundhara, Ghaziabad (UP) - 201011, by our DELHI Office Situated At 9th Floor, Antriksh Delhi - 110001. The said Demand Notice was issued through our Authorized Officer, to you all below mentioned borrowers/lienants of the same as the defaults committed by you in the payment of instalments of principals, interest, etc. The outstanding amounts, we believe that you are evading the service of Demand Notice and hence this Publication of Demand Notice which is also being called upon to pay PNBHFL within a period of 60 Days of the date of publication of this demand notice the aforesaid amount failing which PNBHFL will take necessary action under all or any of the provisions of Section 13(4) of the said Act, against all or any of the secured assets of the secured assets of the borrowers and guarantors.

Under pay the entire amount of outstanding dues together with all costs, charges and expenses incurred by the PNB HFL only of the secured assets by public auction, by inviting quotations, tender from public or by private treaty. Please also note that if the with the costs, charges and expenses incurred by the PNB HFL is not tendered before publication of notice for sale of the secured assets, tender from public or by private treaty, you may not be entitled to redeem the secured asset(s) thereafter. FURTHER you are n transferring either by way of sale, lease or in any other way the aforesaid secured assets.

Address of Borrower & Co-borrower	Name & Address of Guarantor	Property(ies) Mortgaged	Date of Demand Notice	Amount O/s as on date Demand Notice
Ms. Deepali Deepali Add:1- House No B-59, Ganga Vatika Pradesh-250001, Add:2- House No-473, Saker Colony, Gesh-251001, Add:3- Pvt Plot No D - 64, Part Of Plot No Udy. Khara No 294, Revenue Village Abullapur, Pargana Pradesh-250002, Mr. Davender Kumar Add:4- Up 1, Mandi Gandhi Ganj, Shimanpura, Shamli, Muzaffarnagar,	NA	Pvt Plot No D - 64, Part Of Plot No D -06, Ganga Sagar Colony, Khara No 294, Revenue Village Abullapur, Pargana Pradesh-250002.	8-Jan-2025	Rs. 32,49,563.75 Rupees Thirty Two Lakhs Forty Nine Thousand Five Hundred Fifty Three And Seventy Five Paise.
Neeraj A Add:1- H No 52/14 Chatepuram, Nohandi, Legal Heir Of Late- Mr. Neeraj A & Mrs. Pooja Devi Add:2- Jalandhar, Uttar Pradesh-203001, Add:3- Plot No. B-58, Nagar, Village- Aurangshahpur Golabadi, Pargana, Meerut, Pradesh-250001.	NA	Plot No. B-58, Khara No. 377, Hardev Nagar, Village- Aurangshahpur Golabadi, Pargana- Meerut, Uttar Pradesh-250001.	28-Dec-2024	Rs. 15,43,823.61 (Rupees Fifteen Lakhs Forty-Three Thousand Eight Hundred Twenty-Three And Sixty-One Paise Only)
Anshu / Sweet & Cuts Retail Private Limited Add:1- C/64 in, Okar Nagar, North West Delhi, Delhi-110035, Add:2- G/2408, Gali No. 3, Mehala Ram Nagar, Gandhi Nagar, Flat No-C/6/154 C, Third Floor, Dda Flats, Lawrence Road,	NA	Flat No-C - 6/154 C, Third Floor, Dda Flats, Lawrence Road, Delhi-110035	9-Jan-2025	Rs. 49,59,824.15 Rupees Forty Nine Lakhs Fifty Nine Thousand Eight Hundred Twenty Four And Fifteen Paise.



